



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-05022020-215933

CG-DL-W-05022020-215933

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 04]

नई दिल्ली, जनवरी 26—फरवरी 1, 2020, शनिवार/माघ 6—माघ 12, 1941

No. 04] NEW DELHI, JANUARY 26—FEBRUARY 1, 2020, SATURDAY/MAGHA 6—MAGHA 12, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 21.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (स्टाफकार ड्राइवर) भर्ती नियम, 1978 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बताते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता .—वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|-----------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1° स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) | 1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसूचित | स्तर 2 (19900-63200 रु.) | लागू नहीं होता | 18-25 वर्ष * (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p>* यदि सीधी भर्ती को प्रत्यक्ष खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा किया जाना है तो आयु-सीमा 18-27 वर्ष होगी।</p> |
|--|--|--|--|--|---|

| | | | |
|--|---|-------------------------------|--|
| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| <p>अनिवार्य:</p> <p>(i) मोटर कारों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो।</p> <p>(ii) मोटर यंत्र की जानकारी (अभ्यर्थी यान के गौण दोषों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए)</p> <p>(iii) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>(iv) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>वांछनीय: होम गार्ड या नागरिक स्वयं सेवक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: अनुभव सम्बन्धी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p> | लागू नहीं होता | दो वर्ष | <p>प्रतिनियुक्ति या आमेसन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन</p> |

| प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|--|--|---|
| (11) | (12) | (13) |
| <p>प्रतिनियुक्ति या आमेलन : अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900 रु.) में ऐसे नियमित बहु कार्य कर्मचारिवृंद में से और जिनके पास चालन परीक्षा के आधार पर मोटर चालन के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हैं, जिसके न हो सकने पर ; कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग या इसके अधीन अन्य कार्यालयों में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 1 (18000-56900 रु.) में ऐसे सवार हरकारा, स्टाफ कार चालक और कर्मचारी जिनके पास चालन परीक्षा के आधार पर मोटर चालन के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हैं, दोनों के न हो सकने पर; भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों या विभागों में समरूप नियमित कर्मचारिवृंद द्वारा जो स्तंभ (7) के अधीन विहित अर्हता पूरी करते हैं ।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन सशस्त्र बल के ऐसे कर्मिकों के सम्बन्ध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिज़र्व में स्थानांतरित किये जाने वाले हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> | <p>विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर आर्थिक सलाहकार या अपर सांख्यिकी सलाहकार, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय -अध्यक्ष 2. अवर सचिव (आर्थिक प्रशासन) कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग -सदस्य; और 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय -सदस्य | <p>लागू नहीं होता ।</p> |

[फा. सं. ए-12018/1/2019-ईए]

अभिजीत चक्रवर्ती, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)**

New Delhi, the 27th January, 2020

G.S.R. 21.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Economics and Statistics (Staff Car Driver) Recruitment Rules, 1978, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Directorate of Economics and Statistics, Staff Car Driver (Ordinary Grade), Group 'C' post, Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the post | Number of post | Classification | Level in the pay matrix | Whether selection post or non-selection post | Age-limit for direct recruits |
|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Staff Car Driver (Ordinary Grade) | 1*(2020) *Subject to variation dependent on work load | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial | Level 2 (Rs.19900-63200) | Not Applicable | 18-25 years * (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>*If the 'direct recruitment' is to be made by direct open competitive Examination, the age-limit would be 18-27 years.</p> |
|--|--|--|--|--|---|

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---|---|-----------------------------|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| <p>Essential :</p> <p>(i) Possession of a valid driving license for motor cars;</p> <p>(ii) knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor- defects in vehicle);</p> <p>(iii) experience of driving a motor car for atleast three years; and</p> <p>(iv) pass in 10th standard.</p> <p>Desirable :</p> <p>Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers.</p> <p>Note 1: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority.</p> <p>Note 2: In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p> | Not Applicable | Two years | <p>Deputation/absorption failing which by direct recruitment.</p> <p>For Ex-servicemen:</p> <p>Deputation or re-employment</p> |

| In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|---|---|--|
| (11) | (12) | (13) |
| <p>Deputation/absorption : From amongst the regular Multi Tasking Staff of Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare in level 1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix and possessing valid Driving License for driving Motor Car on the basis of driving test, failing which, by Dispatch Rider or Staff Car Driver or any other employee drawing pay in level 1 (Rs.18000-56900) in the Pay Matrix in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare or in Offices under that Department possessing valid Driving License for driving Motor Cars on the basis of a driving test, failing both by regular similar staff mentioned above working in other Ministries or Departments of the Government of India fulfilling qualifications prescribed under column (7).</p> <p>For Ex-Servicemen Deputation or re-employment: Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed under column (7) shall also be considered on deputation terms up to the date on which they are due for release from the armed forces and thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation/absorption shall not be 'Not exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.</p> | <p>Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Additional Economic Adviser or Additional Statistical Adviser, Directorate of Economics and Statistics – Chairman; 2. Under Secretary (Economic Administration), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; and 3. Chief Administrative Officer, Directorate of Economics and Statistics - Member. | Not Applicable. |

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 22.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम 2001 को जहां तक सवार हरकारा के पद से संबंधित है उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में सवार हरकारा के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, सवार हरकारा, (समूह 'ग' पद) भर्ती, नियम, 2020 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे*

2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन पद है अथवा अचयन पद | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा |
|-------------|---|---|---|------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सवार हरकारा | 02* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.) | लागू नहीं होता | <p>18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित मामलों में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण 1. - आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-खंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p>टिप्पण 2.- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------------|
| | | | | | नाम भेजने के लिए कहा गया है। |
|--|--|--|--|--|------------------------------|

| | | | |
|---|--|--------------------------------|--|
| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| <p>आवश्यक: जो व्यक्ति</p> <ol style="list-style-type: none"> मोटर साइकिल और आटोरिक्षा के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो। मोटर साइकिल या ऑटो रिक्शा में दो वर्ष अनुभव रखता हो। मोटर साइकिल या आटोरिक्षा यांत्रिकी का ज्ञान (पदधारी को वाहन की छोटी-मोटी त्रुटियों को दूर करने के लिए समर्थ होना चाहिए) रखता हो। अंग्रेजी और हिन्दी या जिस क्षेत्र में संबंधित संगठन स्थित हो, वहां की प्रादेशिक भाषा पढ़ सकता हो। <p>बांछनीय: जो व्यक्ति</p> <ol style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त बोर्ड से आठवां स्तर पर उत्तीर्ण हो। होमगार्ड या सिविल स्वयं सेवक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव रखता हो। <p>टिप्पण :- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है/हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p> | लागू नहीं होता | दो वर्ष | प्रतिनियुक्ति या आमेलन जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। भूत पूर्व सैनिकों के लिए- प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा। |

| | | |
|--|--|---|
| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
| (11) | (12) | (13) |
| प्रतिनियुक्ति/आमेलन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में वेतन मैट्रिक्स (18000-56900रू.) के | समूह "ग" विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:- | लागू नहीं होता। |

| | | |
|--|--|--|
| <p>स्तर 1 में नियमित समूह "ग" के कर्मचारियों में से जिसके न हो सकने पर वेतन मैट्रिक्स (18000-56900रू.) के स्तर में केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों से नियमित सवार हरकारा या समूह "ग" के कर्मचारियों से जो स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हता रखते हों।</p> <p>भूतपूर्व सैनिक- प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के कर्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं और जिसके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p> <p>टिप्पण 1:-प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> | <p>i. उपसचिव या निदेशक (प्रशासन), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग -अध्यक्ष</p> <p>ii. अवर सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग -सदस्य</p> <p>iii. यदि समिति के अध्यक्ष या दो में से एक भी सदस्य -सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के न हों तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में इन समुदायों का कोई ऐसा अधिकारी जो अवर सचिव की श्रेणी से कम का न हो।</p> | |
|--|--|--|

[फा. सं. ए-12018/04/2018-प्रशा.1(बी)]

बी.के.पी. अंगम, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**(Department of Science and Technology)**

New Delhi, the 24th January, 2020

G.S.R. 22 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Science and Technology (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 2001, in so far as they relate to the post of Despatch Rider, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Despatch Rider in the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Despatch Rider (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | Number of post | Classification | Level in pay matrix | Whether selection post or non-selection post | Age-limit for direct recruits |
|----------------|---|---|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Despatch Rider | 02* (2020) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-ministerial | Level 2 in the pay matrix (Rs. 19900 – 63200) | Not applicable | Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants up to forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Schedules Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for residents of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2: In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names. |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---|---|-----------------------------|--|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| Essential: (i) Possession of a valid driving license for motor cycle or autorickshaw. (ii) Two years' experience in driving motor-cycle or autorickshaw. (iii) Knowledge of motor cycle or autorickshaw mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in the vehicle). (iv) Ability to read English and Hindi or (vi) regional languages of the area in which the concerned organisation is situated. Desirable: (i) Pass in the 8 th standard from recognised Board (ii) Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. Note: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. | Not applicable | Two years | Deputation or absorption failing which by direct recruitment. For Ex-servicemen Deputation or re-employment. |

| In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|--|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| Deputation/Absorption From amongst regular Group 'C' employees in level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900), in the | Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - (i) Deputy Secretary or Director, (Admn.) Department of Science and Technology - Chairperson; | Not applicable |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Department of Science and Technology failing which from the regular Despatch Rider or Group 'C' employees from other Ministries of the Central Government in level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) who possess the qualification and experience prescribed for direct recruits in Column 7.</p> <p>For Ex-servicemen Deputation / Re-employment The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; Thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date for receipt of applications.</p> | <p>(ii) Under Secretary, Department of Science and Technology - Member;</p> <p>(iii) An officer not below the rank of Under Secretary in the Department of Science and Technology belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes community, in case either the Chairperson or either of the two members of the Committee do not belong to these communities - Member.</p> | |
|---|--|--|

[F. No. A-12018/04/2018-Admn. I (B)]

B.K.P. ANGAM, Under Secy.